



सत्यमेव जयते

**राजस्थान राजपत्र
विशेषांक**

साइरिक प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary**

Published by Authority

भाद्र 22, शुक्रवार, शाके 1941–सितम्बर 13, 2019

Bhadra 22, Friday, Saka 1941–September 13, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur, September 12, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/9987 :-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Indergarh has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Indergarh. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

By Order,

Ujjwal Rathore,

Joint Secretary to Government

कार्यालय: नगर पालिका मण्डल इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज.)

प्रारूप-क

क्रम संख्या	वार्ड संख्या	वार्डों के सीमांकन का विवरण
1	1	PWD कार्यालय, सहकारी भवन, दीवान भवन, रामद्वारा से नगर पालिका क्षेत्र में स्थित कंजर बस्ती पर होकर रावो का शमशान से राधिका होटल से होकर बक्शु रेबारी से सवाई माधोपुर बस स्टेप्ड का पिछला भू-भाग पर होकर मुक्ति धाम शमशान को शामिल करते हुये मेघराज चौधरी से सम्पूर्ण कालबेलिया बस्ती, बड़ तिराये से होकर धनपाल मीणा होटल पर होकर वन विभाग कार्यालय सवाई माधोपुर रोड से पुराना रास्ता मोहनपुरा पर होकर खाजा की बावड़ी कब्रिस्तान तक।
2	2	रामावतार बैरवा का मकान नगर पालिका का सम्पूर्ण खसरा नं. 70 एवं जगन्नाथ बैरवा, डूंगशाह बाबा की सम्पूर्ण बस्ती, विशाल हलकारा व छितर बैरवा को लेते हुए अब्दुल गफ्फार चिश्ती के मकान पर होकर भागीरथ मिस्त्री को सम्मिलित करते हुए मेहमूद मिस्त्री के मकान तक एवं आधुनिक शौचालय से नगर पालिका इन्द्रगढ़ से माताजी रोड दक्षिणी और सत्यनारायण कलाल के मकान से नारायणी देवी के मकान पर होते हुए बाबूलाल गहवारिंया के मकान पर होकर, रामप्रसाद के पट्टी स्टोक से हरकारा शौरूम केशरिया खाल व सम्पूर्ण

		लक्ष्मी मार्केट बस्ती तक, एवं नेहा इलेक्ट्रीकल्स की दुकान BOB ATM (प्रभुलाल गुप्ता) ऑंकार कोली पर होकर कमलजी की मील को शामिल करते हुये केसरिया खाल सवाई माधोपुर बस स्टेण्ड तक।
3	3	सोसर मल सैनी की दुकान से चेतनदास जी की बगीची की सम्पूर्ण बस्ती अहिंसा मार्ग पेट्रोल पम्प से होकर सम्पूर्ण गांधी नगर बैरवा बस्ती को सम्मिलित करते हुए कचहरी दरवाजे के बाहरी हिस्से तक विमल कुमार हरकारा की बगीची तक।
4	4	जैन गौतम से चक्कर के बालाजी के सम्पूर्ण भाग को सम्मिलित करते हुये कब्रिस्तान मेवातियान घांसी माली की बगीची को शामिल करते हुये मोती माली व गोपी माली के मकान से होकर पिन्कु पालीवाल कमलजी के मकान बृजमोहन गर्ग के आगे पीछे का सम्पूर्ण भाग एवं डॉ. गुप्ता के मकान पर होकर झरनिया कुण्ड छात्रावास रामनारायण माली की बगीची एवं गायत्री मन्दिर को सम्मिलित करते हुये क्षारभाग (सुल्तान सिंह की बगीची) कजोड़ माली शिवशंकर काछी तैजाजी का चैक से अगड़ व श्रवण माली का कुआ से पंच बेवरिया रायजी की बाउडी छतरिया व गोसाई मठ से हाथी की ठान पर होकर रशीद जागीरदार के मकान को शामिल करते हुए गनी मास्टर से अब्दुल लतीफ मुंशी के मकान को लेते हुए उपरला भोई मोहल्ला का सम्पूर्ण भाग को लेते हुए तालाब की चैकी से सलीम मेव मरजीना अल्लादीन कल्लू मिस्त्री मरजीना शरीफ वकील इकराम PTI अल्लादीन के मकान से सलीम पिता रमजानी के मकान को सम्मिलित करते हुए। सी सै0 स्कूल का सम्पूर्ण भाग छात्रावास व मधुश्री दिल्ली वालों के बगीची रावण जी का चैक दुर्गशंकर माली का खेत, खेत नवलगिरी गिरधारी को शामिल करते हुए महावीर पिता औकार माली का खेत पर होकर खान साहब का खेत से छोटू माली के खेत पर होकर, कन्हैयालाल भोई व सत्यानाराण कहार के खेत से सम्पूर्ण कालामाल मालियों का मोहल्ला दोनों और व मोड के बालाजी की पठारी की सम्पूर्ण बस्ती व स्कूल को सम्मिलित करते हुए मैन हाईवे से गोविन्द माली के खेत पर होकर हजारी लाल भंवर लाल के मकान से भूरिया कुआ की चैकी तक व सम्पूर्ण पीरशाह बाबा की डूगरी व गोसाई मठ तक।
5	5	तालाब बारी से बाबा लालशाह जी की दरगाह को सम्मिलित कर नसरु खां के मकान से होकर रहीम घड़ी वाला, रफीक ड्राईवर व गौश मोहम्मद को सम्मिलित करते अब्दुल सत्तार के मकान पर होकर मेहमूद कम्पाउंडर से निसार टायर वाले के मकान से मोटा खां के मकान को लेते हुए खवाजू खां के मकान से कल्लन भाई व अब्दुल कदीर के मकान को लेते हुए रामपाल धोबी के मकान से विष्णु वल्लभ जी के मकान तक जमील कबाड़ी के मकान, सगीर, गफ्फार सलीम कबाड़ी के मकान को सम्मिलित कर मोहन लाल चोबिसा के मकान पर होकर कन्हैया सिंह जी हवैली से मकान दुर्गाबाई व

		सत्यनारायण भगवान का मन्दिर से फजरुल्लाह खां के मकान से काटीर के मकान पर होकर नारायण सिंह व कुंज बिहारी मास्टर पर होकर बांके बिहारी जी के मकान व नोहरा गुजराती जयराम गुर्जर तक।
6	6	श्री नाथूलाल लाल खटीक का मकान पाँवर हाउस के पास व पुलिस स्टेशन व रेजीडेन्स को लेते हुए सहायक अभियन्ता के पीछे की बन्जारा बस्ती को लेते हुए तहसील रावखोल की पुलिया तक झानाशाह का बाग नारायण पिता औंकार गुर्जर को मकान को लेते हुए पण्डित गंगाधर जी की बगीची पर होकर गेस्ट हाउस पर होकर पुराने वेयर हाउस शान्ति लाल माली को सम्मिलित करते हुए जाकिर शाह बाबा की मजार से जय कुंवार जी के भट्टे व ईदगाह रशीद सोरगर की दुकान से सत्यनारायण कलाल बिहारी खटीक रामनिवास दुकान से राजेन्द्र चावला मूलचन्द सुवालका की दुकान बृजमोहन गर्ग गली दोनों और पोस्ट ऑफिस व बिरधीलाल तेली के मकान से गिरिराज खाती से इन्द्राणी पुलिया तक।
7	7	मोती कुआं ब्रजमोहन कहार को सम्पूर्ण भाग अब्दुल शकूर मास्टर के मकान से पुरानी जकात तक फिर जकात से खजानमल पटवारी से सूरजमोची, ऋषि मास्टर व गोपाल जैन, व छुट्टन खां के मकान से जान पोरवाल को लेते हुए हरकारा भवन, सूरजमल सोनी के मकान से अब्दुल रहमान पिता अल्लादीन लीलघर के मकान तक नेमीचन्द जैन के मकान से जालेश्वर महादेव सदर बाजार धर्मशाला को लेते हुए मुन्ना लीलघर के मकान तक, मुन्ना लीलघर से बद्रीलाल राठौर को लेते हुए नागर व पूरण शर्मा का बाईसी पाड़ा व पुराना मकान को लेते हुए वापस नेमीचन्द के मकान तक अब्दुल करीम के मकान दुकान को लेते हुए अली हुसैन से बून्दू हाफीज जामा मस्जिद व मदरसा कस सम्पूर्ण भाग अब्दुल खलील मन्दिर व दाउजी को सम्मिलित करते हुए डॉ. शरीफ को सम्मिलित करते हुए सम्पूर्ण सब्जीमण्डी तोपखान (अग्रवाल भवन) तक।
8	8	कचहरी करवाजा, आयुर्वेदिक औषधालय से होकर बाबूलाल सलावट के मकान से होकर कोट से सहारे-सहारे धन्नालाल सैनी, मोड़ी का कुआं को सम्मिलित करते हुए सुबराती वन विभाग का मकान को सम्मिलित कर नन्द किशोर महाजन के मकान पर होकर, रामेश्वर दयाल पालीवाल के मकान से राधेश्याम पंकज के मकान पर होकर, कैलाश माली से अर्जुन गुर्जर के मकान पर होकर श्री किशन गुर्जर धनपाल गुर्जर, ओम प्रकाश/श्री दयाल के मकान व दुर्गाशंकर माली के मकान तक।
9	9	राम किशन गुर्जर के मकान से बद्री लाल माली व धन्नालाल सैनी से लेकर रमेश पण्डित के मकान से मदन कुम्हार, सत्यनारायण पोटर, महावीर सिंह राजावत, उदालाल ढोली को लेते हुए हरिनारायण मीणा मैनेजर गोबरी लाल गुर्जर वैद्य गौत्तम राम, गोपाल लाल कुम्हार, किशन गोपाल महाजन से नन्द

		किशोर चतुर्वेदी के मकान को लेते हुए टिपटा गणेश मन्दिर को शामिल करते हुए अवैध बिहारी शर्मा के मकान से सी.बालिका विद्यालय को सम्मिलित करते हुए कौशल्या बाई, चिरंजी लाल बैरागी, के मकान को सम्मिलित करते हुए परमानन्द सौनी के मकान से महावीर सिंह के सामने का सम्पूर्ण चैक तक, देव नारायण के मन्दिर से सदर बाजार महावीर चंवरिया के मकान को सम्मिलित करते हुए नाथूलाल शर्मा के मकान पर होकर प्रेमचन्द चौपड़ा के मकान से तहसील के पीछे का सम्पूर्ण भाग, हीरामन जी का चबूतरा व रामू गुर्जर के मकान से वापस देव नारायण के मकान तक।
10	10	कचरा दरवाजे के अन्दर रास बिहारी के मकान से हनुमान शर्मा के मकान से पूरुषोत्तम ढोली के मकान को लेते हुए चिरंजी लाल श्रीमाल के बाड़े पर होकर मुरली मनोहर के मकान को सम्मिलित कर गोरीलाल पेन्टर के मकान से हनुमान शर्मा के मकान तक, डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह के गैरिज से हवेली पर होकर श्री चरंजी लाल श्रीमाल के मकान को सम्मिलित करते हुए, रमेश जैन, अवैध बिहारी बैरागी के मकान पर होकर नेगीजी के मन्दिर बाबूलाल व मन्दिर बिहारी, हरिसिंह के मकान से मुस्तकीम पी.टी.आई के मकान से होकर कालू पटवारी को लेते हुए सम्पूर्ण गरोड़िया पाड़ा, मे अनिल सैनी के मकान पर होकर रासबिहारी के मकान पर वापस व कचरी दरवाजे के पुराना पशु चिकित्सालय से पुरुषोत्तम शर्मा के मकान से मन्दिर महादेव तक, रायजी की बावड़ी चौकी तक।
11	11	अब्दुल सरदार के मकान से हेमराज जी शर्मा को लेते हुए नाथूलाल कुम्हार, इकबाल कारीगर पुरानी कोतवाली अम्बार को सम्मिलित करते हुए मस्जिद मदीना व मॉ शारदे स्कूल तक एवं उस्मान के मकान से होते इब्राहीम मास्टर से जिगर भाई को लेते हुए बाबू खां शोराब खां के मकान से मोटा के मकान को शामिल करते हुए मकसुद शाह से बुन्दू मेव के मकान तक मजिस्ट्र मेवातियांन से मकान बशीर खां पर होकर गुलशेर के मकान को सम्मिलित करते हुए जब्बार को लेते हुए इमामुदीन के मकान को लेते हुए खलील साईकिल वाले को सम्मिलित करते हुए मेवाति मस्जिद तक।
12	12	अश्वनी जी मास्टर को लेते हुए पूनियों का दपोला रामजीवन के मकान से दुर्लभ जी का बाड़ा को लेते हुए वापस हनुमान जी के मकान तक साथ ही शान्ति लाल शर्मा अद्यापक से किशन गोपाल कुम्हार के मकान से जेल खाना मास्टर जीतमल जी को लेते हुए जेल खाने पर होकर पुनियो का दपोला अन्जु शर्मा के मकान से विजय शर्मा के मकान पर होकर अब्दुल शकूर नाई के मकान से गोपाल सिंह हाड़ा के मकान पर होकर अनवर ड्राईवर, फारुक बैग का बाड़ा से वापस शान्तिलाल अद्यापक के मकान तक।
13	13	गढ़ पैलेस से त्रिवेणी भट्ट के मकान से व प्रेम शंकर कम्पाउडर के मकान से बुद्ध नारायण के मकान को लेते हुए वासुदेव गुजराती व भूली के बालाजी

		नूतन शर्मा, कृष्ण मुरारी व्यास हरिनारायण गुजराती अध्यापक गोन्दी के भैरु से बड़ा नया जैन मन्दिर से इकबाल कम्पाउडर व महावीर शर्मा के मकान रामकरण कहार के मकान होकर कपूर जी मेनेजर को शामिल करते हुए रवि शर्मा व चेतना सेन से बद्रीलाल नरबान के मकान पर होते हुए नाथूलाल कहार के बाडे व मकान को शामिल करते हुए वापस रामकरण कहार के मकान तक।
14	14	हरिनारायण गुजराती वकील के मकान से होकर सरस्वती स्कूल को लेते हुए खातोली वालों का मकान से सूरजभान सिंह के मकान से ऊपरी और रमेश भोई के मकान को शामिल करते हुए रा030प्रा0 विद्यालय से शड्डो के मकान से मुश्ताक पी.टी.आई. व गुजरो का मन्दिर व हवैली को शामिल करते हुए घनश्याम शर्मा कानूनगो से सम्पूर्ण गाड़ी खाने से खेड़ली दरवाजे को दोनों क्वाटर को शामिल करते हुए राधेश्याम रेवडिया से होकर रामसिंह के मकान को लेते हुए बंशी हरिजन के मकान तक सम्पूर्ण हरिजन बस्ती तक।
15	15	नगर पालिका इन्द्रगढ़ कार्यालय का पुराना कार्यालय भवन के पूर्व दक्षिणी कोने से श्री नाथूलाल लाल साहू पिता श्री लाल तेली के मकान से रेखराज, श्री बंशी लाल महाजन, से सम्पूर्ण खटीक बस्ती कन्हैया लाल आर्य पूरण मल खटीक गोपी खटीक, चुंगी नाका बस स्टेण्ड से नाथू औंकार जलदाय विभाग PHED का कार्यालय खेड़ली दरवाजा तक।
	16	16 राजेन्द्र साहू के मकान से मोती शंकर साहू व अब्दुल समद न्यायगीर, हरकचन्द, मूलचन्द, कलाल को लेते हुए स्टेट बैंक आफ़ इण्डिया बैंक को लेते हुए निसार स्कूल वाला अजीज से होकर आबिद पिता बफाती से मकान से जहूर टेलर से गूलशन पीर बाबा से अब्दुल रसीद पटवारी के मकान तक हाजी बफाती के मकान से छुट्टन जी मकान को शामिल कर लखपति के मकान से सुबराती अंसारी के मकान तक, जमील अंसारी से माधोकोली व ग्यारसी लाल कोली, बून्दू शरीफ, शहीद पत्रकार, छीपो का मन्दिर, अययूब खां के मकान से रशीद शोरगर, सत्यनारायण चौबदार, प्रभू गुर्जर मुस्ताक टेलर, उमर खान, शकूर घड़ी साज, अब्दुल गफ्फार रेलवे वाले के मकान को लेते हुए मजीद टेलर व सलीम टेलर व अनार बाई के मकान तक।
17	17	सत्यनारायण बंसल की दुकान मकान से रमेश कोली, रामदेव कोली को लेते हुए अकील कम्पाउडर के मकान पर होकर ख्याजू ड्राईवर से किशन गुर्जर पीरु कोली राजेश कोली के मकान अशोक कोली मास्टर व पूरण कोली गोपाल रामदेव कोली के मकान से अब्दुल गनी न्यायगीर देवीलाल कोली RSEB से ईश्माईल न्यायगीर नाथू धोबी, निजामुद्दी मिस्त्री, गोपाल धोबी, से हरिया कोली, के मकान को लेते हुए हुसैन न्यायागीर से मुन्ना हैड साहब के मकान से पूराना चिकित्सालय को व सदर बजार सम्मिलित करते हुए मकान शंभूदयाल शाहू, सुरेश पोरवाल जैन मन्दिर मकान कालू लाल जैन मन्दिर गोपाल कलाल चन्दा मिस्त्री व राकेश सक्सेना के मकान से नया मन्दिर

		बल्लभराम घनश्याम नरबान त्यागी जी लड्डू गर्ग के मकान तक मांगीलाल साहू पूरण मल हरकारा के मकान तक।
18	18	कासम पीर से मकान आदित्य शर्मा से हरिप्रसाद शर्मा को शामिल करते हुए बंटी हलवाई को शामिल करते हुए प्रहलाद भोई के मकान पर होकर फारुक बैग से दामोदर जैन का मकान, गजेन्द्र सिंह जी को लेते हुए सुभाष गली का कोना दुकान कपूर जैन से कमलेश जैन के मकान को लेते हुए पारस जी के मकान से रमेश बजाज, गिराज के मकान तक व भट्ट जी का मकान से होकर होकर औकार लाल जैन एल.ए. के मकान से कमल जैन बालापुरा वाला तक।
19	19	ललीत गुजराती सैकेट्री के मकान दिनेश खाती से महावीर जनरल की दुकान से बसन्ती लाल मोची के मकान को लेते हुए बिस्टेन्टु की गली पर होकर मकान गोयल साहब से श्यामसुन्दर मास्टर को लेते हुए गोपाल गोस्वामी के मकान से दूलेसिंह जी के मकान, बसन्ती लाल नागर धर्मेन्द्र की दुकान से सदर बाजार मे धर्मेन्द्र के मकान से तोला चन्द्र दर्जी के मकान तक हनुमान शर्मा अद्यापक से हवैली चन्द्र बिहारी व मन्दिर चन्द्र बिहारी की गली शिवजी लाल शर्मा व प्रेम शंकर कहार, गजू पालीवाल के मकान की गली का सम्पूर्ण भाग तक। सुनारो के मन्दिर से लेते हुए दुर्लभचन्द जैन की सम्पूर्ण गली को सम्मालित करते हुए ग्यारसीलाल तैली के मकान तक।
20	20	गोपाल गुर्जर, के मकाने से कैलाश नगर पालिका के मकान से लौकेश सिंह व प्रहलाद गुर्जर, कजोड गुर्जर, को लेते हुए मेहमूद हाफिज के मकान से नारायणसिंह जी के मकान को लेते हुए बाबू गुर्जर के मकान पर होकर नरेन्द्र पोरवार, चिरंजी लाल धोबी के मकान पर होकर माताजी की गुवाड़ी मांगीलाल महावर का मकान कासम पीर दरगाह से उदय पुरिया हाउस दुर्गासिंह हाड़ा के मकान को लेते हुए डॉ. मणी के मकान को लेते हुए परसराम कुम्हार, रामनिवास खटीक लाल उदयभाव सिंह से बाबू नरबान तक।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका इन्द्रगढ़

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।